

## सुन्दरकाण्ड

शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनधं निर्वाणशान्तिप्रदं  
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदांतवेद्यं विभुम्।  
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि  
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिम्॥ १॥

नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये  
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा ।  
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुञ्जवं निर्भरां मे  
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥ २॥

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं  
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।  
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं  
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ ३॥

जामर्वत के बचन सुहाए । सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ॥

तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ १ ॥  
जब लगि आवौं सीतहि देखी । होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी ॥  
यह कह नाइ सबन्हि कहुँ माथा । चलेउ हरषि हियँ धरि रघुनाथा ॥ २ ॥  
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर ॥  
बार बार रघुबीर सँभारी । तरकेउ पवनतनय बल भारी ॥ ३ ॥  
जेहिं गिरि चरन देइ हनुमंता । चलेउ सो गा पाताल तुरंता ॥  
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । एही भाँति चलेउ हनुमाना ॥ ४ ॥  
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी । तैं मैनाक होहि श्रमहारी ॥ ५ ॥

### दोहा

हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम ।  
राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम ॥ १ ॥

जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानैं कहुँ बल बुद्धि बिसेषा ॥  
सुरसा नाम अहिन्ह कै माता । पठइन्हि आइ कही तेहिं बाता ॥ १ ॥  
आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । सुनत बचन कह पवनकुमारा ॥  
राम काजु करि फिरि मैं आवौं । सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावौं ॥ २ ॥  
तब तव बदन पैठिहउँ आई । सत्य कहउँ मोहि जान दे माई ॥  
कवनेहुँ जतन देइ नहिं जाना । ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना ॥ ३ ॥

जोजन भरि तिहिं बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा ॥  
सोरह जोजन मुख तेहिं ठ्यऊ । तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ ॥ ४ ॥  
जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा । तासु दून कपि रूप देखावा ॥  
सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ ५ ॥  
बदन पझठि पुनि बाहेर आवा । मागा बिदा ताहि सिरु नावा ॥  
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरमु तोर मैं पावा ॥ ६ ॥

### दोहा

राम काजु सबु करिहु हु तुम्ह बल बुद्धि निधान ।  
आसिष देइ गई सो हरषि चलेउ हनुमान ॥ २ ॥

निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई ॥ करि माया नभु के खग गहई ॥  
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं । जल बिलोकि तिन्ह कै परिछाहीं ॥ १ ॥  
गहइ छाहुँ सक सो न उड़ाई । एहि बिधि सदा गगनचर खाई ॥  
सोइ छल हनूमान कहुँ कीन्हा । तासु कपटु कपि तुरतहिं चीन्हा ॥ २ ॥  
ताहि मारि मारुतसुत बीरा । बारिधि पार गयउ मतिधीरा ॥  
तहाँ जाइ देखी बन सोभा । गुंजत चंचरीक मधु लोभा ॥ ३ ॥  
नाना तरु फल फूल सुहाए । खग मृग बृंद देखि मन भाए ॥  
सैल बिसाल देखि एक आगें । ता पर धाइ चढ़ेउ भय त्यागें ॥ ४ ॥

उमा न कछु कपि कै अधिकाई ॥ प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥  
गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी । कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी ॥ ५ ॥  
अति उतंग जलनिधि चहु पासा । कनक कोटि कर परम प्रकासा ॥ ६ ॥

छंद

कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना ।  
चउहटू हटू सुबटू बीथीं चारु पुर बहुबिधि बना ॥  
गज बाजि खच्चर निकर पदच्चर रथ बरूथन्हि को गनै ।  
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहिं बनै ॥ १ ॥  
बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापीं सोहहीं ।  
नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥  
कहुँ माल देह बिसाल सैल समान अतिबल गर्जहीं ।  
नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुबिधि एक एकन्ह तर्जहीं ॥ २ ॥  
करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहीं ।  
कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥  
एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही ।  
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पैहाहिं सही ॥ ३ ॥

दोहा

पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार ।  
अति लघु रूप धरौं निसि नगर करौं पइसार ॥ ३ ॥

मसक समान रूप कपि धरी । लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥  
नाम लंकिनी एक निसिचरी । सो कह चलेसि मोहि निंदरी ॥ १ ॥  
जानेहि नहीं मरमु सठ मोरा । मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥  
मुठिका एक महा कपि हनी । रुधिर बमत धरनीं डनमनी ॥ २ ॥  
पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥  
जब रावनहि ब्रह्म कर दीन्हा । चलत विरचि कहा मोहि चीन्हा ॥ ३ ॥  
बिकल होसि तैं कपि के मारे । तब जानेसु निसिचर संघारे ॥  
तात मोर अति पुन्य बहुता । देखेउँ नयन राम कर दूता ॥ ४ ॥

### दोहा

तात स्वर्ग अपबर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग ।  
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ४ ॥

प्रबिसि नगर कीजे सब काजा । हृदयँ राखि कोसलपुर राजा ॥  
गरल सुधा रिपु करहिं मिताई । गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥ १ ॥  
गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही । राम कृपा करि चितवा जाही ॥

अति लघु रूप धरेउ हनुमाना । पैठा नगर सुमिरि भगवाना ॥ २ ॥  
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा । देखे जहँ तहँ अगनित जोधा ॥  
गयउ दसानान मंदिर माहीं । अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं ॥ ३ ॥  
सयन किएँ देखा कपि तेही । मंदिर महुँ न दीखि बैदेही ॥  
भवन एक पुनि दीख सुहावा । हरि मंदिर तहँ भिन्न बनावा ॥ ४ ॥

दोहा

रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ ।  
नव तुलसिका बृंद तहँ देखि हरष कपिराइ ॥ ५ ॥

लंका निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ॥  
मन महुँ तरक करै कपि लागा । तेहीं समय बिभीषनु जागा ॥ १ ॥  
राम राम तेहिं सुमिरन कीन्हा । हृदयँ हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥  
एहि सन हठि करिहउँ पहिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी ॥ २ ॥  
बिप्र रूप धरि बचन सुनाए । सुनत बिभीषन उठि तहँ आए ॥  
करि प्रनाम पूँछी कुसलाई । बिप्र कहहु निज कथा बुझाई ॥ ३ ॥  
की तुम्ह हरि दासन्ह महँ कोई । मोरै हृदय प्रीति अति होई ॥  
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी । आयहु मोहि करन बड़भागी ॥ ४ ॥

दोहा

तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम ।  
सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥ ६ ॥

सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महुँ जीभ बिचारी ॥  
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहिं कृपा भानुकुल नाथा ॥ १ ॥  
तामस तनु कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन माहीं ॥  
अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता ॥ २ ॥  
जौं रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तौं तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥  
सुनहु बिभीषन प्रभु कै रीती । करहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥ ३ ॥  
कहहु कवन मैं परम कुलीना । कपि चंचल सबहीं बिधि हीना ॥  
प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥ ४ ॥

दोहा

अस मैं अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर ।  
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ ७ ॥

जानतहुँ अस स्वामि बिसारी । फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी ॥  
एहि बिधि कहत राम गुन ग्रामा । पावा अनिर्बाच्य विश्रामा ॥ १ ॥

पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तहँ रही ॥  
तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता । देखी चलेउँ जानकी माता ॥ २ ॥  
जुगुति बिभीषन सकल सुनाई । चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥  
करि सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ । बन असोक सीता रह जहवाँ ॥ ३ ॥  
देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा । बैठेहिं बीति जात निसि जामा ॥  
कृस तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदयँ रघुपति गुन श्रेनी ॥ ४ ॥

## दोहा

निज पद नयन दिएँ मन राम पद कमल लीन ।  
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ८ ॥

तरु पल्लव महुँ रहा लुकाई । करइ बिचार करौं का भाई ॥  
तेहि अवसर रावनु तहँ आवा । संग नारि बहु किएँ बनावा ॥ १ ॥  
बहु बिधि खल सीतहि समुझावा । साम दान भय भेद देखावा ॥  
कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी ॥ २ ॥  
तव अनुचरीं करेउँ पन मोरा । एक बार बिलोकु मम ओरा ॥  
तृन धरि ओट कहति बैदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ ३ ॥  
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥  
अस मन समझु कहति जानकी । खल सुधि नहिं रघुबीर बान की ॥ ४ ॥

सठ सूने हरि आनेहि मोही । अधम निलज्ज लाज नाहिं तोही ॥ ५ ॥

दोहा

आपुहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान ।  
परुष बचन सुनि काढि असि बोला अति खिसिअन ॥ ९ ॥

सीता तैं मम कृत अपमाना । कटिहउँ तब सिर कठिन कृपाना ॥  
नाहिं त सपदि मानु मम बानी । सुमुखि होति न त जीवन हानी ॥ १ ॥  
स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभु भुज करि कर सम दसकंदर ॥  
सो भुज कंठ कि तव असि धोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा ॥ २ ॥  
चंद्रहास हरु मम परितापं । रघुपति बिरह अनल संजातं ॥  
सीतल निसित बहसि बर धारा । कह सीता हरु मम दुख भारा ॥ ३ ॥  
सुनत बचन पुनि मारन धावा । मयतनयाँ कहि नीति बुझावा ॥  
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई ॥ ४ ॥  
मास दिवस महुँ कहा न माना । तौ मैं मारबि काढि कृपाना ॥ ५ ॥

दोहा

भवन गयउ दसकंधर इहाँ पिसाचिनि बृंद ।  
सीतहि त्रास देखावहिं धरहिं रूप बहु मंद ॥ १० ॥

त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम चरन रति निपुन बिवेका ॥  
सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपना । सीताहि सेइ करहु हित अपना ॥ १ ॥  
सपने बानर लंका जारी । जातुधान सेना सब मारी ॥  
खर आरूढ़ नगन दससीसा । मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥ २ ॥  
एहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई । लंका मनहुँ बिभीषण पाई ॥  
नगर फिरी रघुवीर दोहाई । तब प्रभु सीता बोलि पठाई ॥ ३ ॥  
यह सपना मैं कहउँ पुकारी । होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥  
तासु बचन सुनि ते सब डरीं । जनकसुता के चरनन्हि परीं ॥ ४ ॥

### दोहा

जहाँ तहाँ गईं सकल तब सीता कर मन सोच ।  
मास दिवस बीतें मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ ११ ॥

त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी । मातु बिपति संगिनि तैं मोरी ॥  
तजौं देह करु बेगि उपाई । दुसह बिरहु अब नहिं सहि जाई ॥ १ ॥  
आनि काठ रचु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहु लगाई ॥  
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुनै को श्रवन सूल सम बानी ॥ २ ॥  
सुनत बचन पद गहि समुद्घाएसि । प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि ॥

निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥ ३ ॥  
कह सीता विधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥  
देखिअत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकउ तारा ॥ ४ ॥  
पावकमय ससि स्वत न आगी । मानहुँ मोहि जानि हतभागी ॥  
सुनहि बिनय मम बिटप असोका । सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ ५ ॥  
नूतन किसलय अनल समाना । देहि अगिनि जनि करहि निदाना ॥  
देखि परम बिरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ ६ ॥

### दोहा

कपि करि हृदयं विचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब ।  
जनु असोक अंगार दीन्हि हरषि उठि कर गहेउ ॥ १२ ॥

तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुंदर ॥  
चकित चितव मुदरी पहिचानी । हरष विषाद हृदयं अकुलानी ॥ १ ॥  
जीति को सकइ अजय रघुराई । माया तें असि रचि नहिं जाई ॥  
सीता मन विचार कर नाना । मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥ २ ॥  
रामचंद्र गुन बरनै लागा । सुनतहिं सीता कर दुख भागा ॥  
लागीं सुनै श्रवन मन लाई । आदिहु तें सब कथा सुनाई ॥ ३ ॥  
श्रवनामृत जेहिं कथा सुहाई । कही सो प्रगट होति किन भाई ॥

तब हनुमंत निकट चलि गयऊ । फिरि बैठीं मन विसमय भयऊ ॥ ४ ॥  
राम दूत मैं मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की ॥  
यह मुद्रिका मातु मैं आनी । दीन्हि राम तुम्ह कहँ सहिदानी ॥ ५ ॥  
नर बानरहि संग कहु कैसें । कही कथा भई संगति जैसें ॥ ६ ॥

## दोहा

कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास ।  
जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास ॥ १३ ॥

हरिजन हानि प्रीति अति गाढ़ी । सजल नयन पुलकावलि बाढ़ी ॥  
बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना । भयहु तात मो कहुँ जलजाना ॥ १ ॥  
अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी । अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥  
कोमलचित कृपाल रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निठुराई ॥ २ ॥  
सहज बानि सेवक सुख दायक । कबहुँक सुरति करत रघुनायक ॥  
कबहुँ नयन मम सीतल ताता । होइहहि निरखि स्याम मृदु गाता ॥ ३ ॥  
बचनु न आव नयन भरे बारी । अहह नाथ हौं निपट बिसारी ॥  
देखि परम बिरहाकुल सीता । बोला कपि मृदु बचन बिनीता ॥ ४ ॥  
मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥  
जनि जननी मानहु जियँ ऊना । तुम्ह ते प्रेमु राम के दूना ॥ ५ ॥

दोहा

रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर ।  
अस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर ॥ १४ ॥

कहेउ राम वियोग तव सीता । मो कहुँ सकल भए विपरीता ॥  
नव तरु किसलय मनहुँ कृसानू । कालनिसा सम निसि ससि भानू ॥ १ ॥  
कुबलय बिपिन कुंत बन सरिसा । बारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥  
जे हित रहे करत तेइ पीरा । उरग स्वास सम त्रिबिध समीरा ॥ २ ॥  
कहेहू तें कछु दुख घटि होई । काहि कहौं यह जान न कोई ॥  
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ ३ ॥  
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥  
प्रभु संदेसु सुनत बैदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥ ४ ॥  
कह कपि हृदयँ धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥  
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥ ५ ॥

दोहा

निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु ।  
जननी हृदयँ धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥ १५ ॥

जौं रघुबीर होति सुधि पाई । करते नहिं बिलंबु रघुराई ॥  
राम बान रवि उएँ जानकी । तम बरूथ कहँ जातुधान की ॥ १ ॥  
अबहिं मातु मैं जाऊँ लवाई । प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई ॥  
कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित अझहिं रघुबीरा ॥ २ ॥  
निसिचर मारि तोहि लै जैहहिं । तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहहिं ॥  
हैं सुत कपि सब तुम्हहि समाना । जातुधान अति भट बलवाना ॥ ३ ॥  
मोरे हृदय परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ॥  
कनक भूधराकार सरीरा । समर भयंकर अतिबल बीरा ॥ ४ ॥  
सीता मन भरोस तब भयऊ । पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ ॥ ५ ॥

### दोहा

सुनु मात साखामृग नहिं बल बुद्धि बिसाल ।  
प्रभु प्रताप तें गरुड़हि खाइ परम लघु व्याल ॥ १६ ॥

मन संतोष सुनत कपि बानी । भगति प्रताप तेज बल सानी ॥  
आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना ॥ १ ॥  
अजर अमर गुननिधि सुत होहू । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू ॥  
करहुँ कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥ २ ॥

बार बार नाएसि पद सीसा । बोला बचन जोरि कर कीसा ॥  
अब कृतकृत्य भयउँ मैं माता । आसिष तव अमोघ बिख्याता ॥ ३ ॥  
सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदर फल रुखा ॥  
सुनु सुत करहिं बिपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी ॥ ४ ॥  
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं । जौं तुम्ह सुख मानहु मन माहीं ॥ ५ ॥

### दोहा

देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकीं जाहु ।  
रघुपति चरन हृदयँ धरि तात मधुर फल खाहु ॥ १७ ॥

चलेउ नाइ सिर पैठेउ बागा । फल खाएसि तरु तौरैं लागा ॥  
रहे तहाँ बहु भट रखवारे । कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे ॥ १ ॥  
नाथ एक आवा कपि भारी । तेहिं असोक बाटिका उजारी ॥  
खाएसि फल अरु बिटप उपारे । रच्छक मर्दि मर्दि महि डारे ॥ २ ॥  
सुनि रावन पठए भट नाना । तिन्हहि देखि गर्जेउ हनुमाना ॥  
सब रजनीचर कपि संघारे । गए पुकारत कछु अधमारे ॥ ३ ॥  
पुनि पठयउ तेहिं अच्छकुमारा । चला संग लै सुभट अपारा ॥  
आवत देखि बिटप गहि तर्जा । ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥ ४ ॥

दोहा

कछु मारेसि कछु मर्दैसि कछु मिलएसि धरि धूरि ।

कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि ॥ १८ ॥

सुनि सुत बध लंकेस रिसाना । पठण्सि मेघनाद बलवाना ॥

मारसि जनि सुत बाँधेसु ताही । देसिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥ १ ॥

चला इंद्रजित अतुलित जोधा । बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥

कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अरु धावा ॥ २ ॥

अति बिसाल तरु एक उपारा । बिरथ कीन्ह लंकेस कुमारा ॥

रहे महाभट ताके संगा । गहि गहि कपि मर्दई निज अंगा ॥ ३ ॥

तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा । भिरे जुगल मानहुँ गजराजा ॥

मुठिका मारि चढा तरु जाई । ताहि एक छन मुरुछा आई ॥ ४ ॥

उठि बहोरि कीन्हसि बहु माया । जीति न जाइ प्रभंजन जाया ॥ ५ ॥

दोहा

ब्रह्म अस्ति तेहि साँधा कपि मन कीन्ह विचार ।

जौं न ब्रह्मसर मानउँ महिमा मिटइ अपार ॥ १९ ॥

ब्रह्मबान कपि कहुँ तेहिं मारा । परतिहुँ बार कटकु संघारा ॥

तोहिं देखा कपि मुरुछित भयउ । नागपास बांधेसि लै गयउ ॥ १ ॥  
जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव बंधन काटहिं नर ग्यानी ॥  
तासु दूत कि बंध तरु आवा । प्रभु कारज लगि कपिहिं बँधावा ॥ २ ॥  
कपि बंधन सुनि निसिचर धाए । कौतुक लागि सभाँ सब आए ॥  
दसमुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥ ३ ॥  
कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । भृकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥  
देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन महुँ गरुड़ असंका ॥ ४ ॥

### दोहा

कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुर्बाद ।  
सुत बध सुराति कीन्हि पुनि उपजा हृदयँ बिषाद ॥ २० ॥

कह लंकेस कवन तैं कीसा । केहि कें बल घालेहि बन खीसा ॥  
की धौं श्रवन सुनेहि नहिं मोही । देखउँ अति असंक सठ तोही ॥ १ ॥  
मारे निसिचर केहिं अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान कइ बाधा ॥  
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बल बिरचित माया ॥ २ ॥  
जाकें बल बिरंचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दससीसा ॥  
जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥ ३ ॥  
धरइ जो बिबिध देह सुरत्राता । तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता ॥

हर कोदंड कठिन जेहिं भंजा । तेहि समेत नृप दल मद गंजा ॥ ४ ॥

खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली । बधे सकल अतुलित बलसाली ॥ ५ ॥

दोहा

जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर झारि ।

तासु दूत मैं जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥ २१ ॥

जानेउ मैं तुम्हारि प्रभुताई । सहसबाहु सन परी लराई ॥

समर बालि सन करि जसु पावा । सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा ॥ १ ॥

खायउँ फल प्रभु लागी भूँखा । कपि सुभाव तें तोरेउँ रूखा ॥

सब कें देह परम प्रिय स्वामी । मारहिं मोहि कुमारग गामी ॥ २ ॥

जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे । तेहि पर बाँधेउँ तनयुँ तुम्हारे ॥

मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा । कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा ॥ ३ ॥

बिनती करउँ जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥

देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी । ऋम तजि भजहु भगत भय हारी ॥ ४ ॥

जाके डर अति काल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई ॥

तासों बयरु कबहुँ नहिं कीजै । मोरे कहें जानकी दीजै ॥ ५ ॥

दोहा

प्रनतपाल रघुनायक करुना सिंधु खरारि ।  
गएँ सरन प्रभु राखिहैं तव अपराध बिसारि ॥ २२ ॥

राम चरन पंकज उर धरहू । लंकाँ अचल राज तुम्ह करहू ॥  
रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका । तेहि ससि महुँ जनि होहु कलंका ॥ १ ॥  
राम नाम बिनु गिरा न सोहा । देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥  
बसन हीन नहिं सोह सुरारी । सब भूषन भूषित बर नारी ॥ २ ॥  
राम बिमुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाई ॥  
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । बरषि गएँ पुनि तबहिं सुखाहीं ॥ ३ ॥  
सुनु दसकंठ कहउँ पन रोपी । बिमुख राम त्राता नहिं कोपी ॥  
संकर सहस बिष्णु अज तोही । सकहिं न राखि राम कर द्रोही ॥ ४ ॥

### दोहा

मोहमूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान ।  
भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ २३ ॥

जदपि कही कपि अति हित बानी । भगति बिबेक विरति नय सानी ॥  
बोला बिहसि महा अभिमानी । मिला हमहि कपि गुर बड़ ग्यानी ॥ १ ॥  
मृत्यु निकट आई खल तोही । लागेसि अधम सिखावन मोही ॥

उलटा होइहि कह हनुमाना । मतिभ्रम तोर प्रगट मैं जाना ॥ २ ॥  
सुनि कपि बचन बहुत खिसिअना । बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना ॥  
सुनत निसाचर मारन धाए । सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए ॥ ३ ॥  
नाइ सीस करि बिनय बहूता । नीति बिरोधा न मारिअ दूता ॥  
आन दंड कछु करिअ गोसाँई । सबहीं कहा मंत्र भल भाई ॥ ४ ॥  
सुनत बिहसि बोला दसकंधर । अंग भंग करि पठइअ बंदर ॥ ५ ॥

### दोहा

कपि के ममता पूँछ पर सबहि कहउँ समुझाइ ।  
तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥ २४ ॥

पूँछ हीन बानर तहँ जाइहि । तब सठ निज नाथहि लइ आइहि ॥  
जिन्ह कै कीन्हसि बहुत बड़ाई । देखउँ मैं तिन्ह कै प्रभुताई ॥ १ ॥  
बचन सुनत कपि मन मुसुकाना । भइ सहाय सारद मैं जाना ॥  
जातुधान सुनि रावन बचना । लागे रचें मूढ़ सोइ रचना ॥ २ ॥  
रहा न नगर बसन घृत तेला । बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला ॥  
कौतुक कहँ आए पुरबासी । मारहिं चरन करहिं बहु हाँसी ॥ ३ ॥  
बाजहिं ढोल देहिं सब तारी । नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥  
पावक जरत देखि हनुमंता । भयउ परम लघुरूप तुरंता ॥ ४ ॥

निबुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारीं । भइँ सभीत निसाचर नारीं ॥ ५ ॥

दोहा

हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास ।  
अदृहास करि गर्जा कपि बढ़ि लाग अकास ॥ २५ ॥

देह बिसाल परम हरुअई । मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई ॥  
जरइ नगर भा लोग बिहाला । झपट लपट बहु कोटि कराला ॥ १ ॥  
तात मातु हा सुनिअ पुकारा । एहिं अवसर को हमहि उबारा ॥  
हम जो कहा यह कपि नहिं होई । बानर रूप धरें सुर कोई ॥ २ ॥  
साधु अवग्या कर फलु ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर जैसा ॥  
जारा नगर निमिष एक माहीं । एक बिभीषन कर गृह नाहीं ॥ ३ ॥  
ता कर दूत अनल जेहिं सिरिजा । जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥  
उलटि पलटि लंका सब जारी । कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ ४ ॥

दोहा

पूछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि ।  
जनकसुता के आगे ठाढ़ भयउ कर जोरि ॥ २६ ॥

मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा । जैसें रघुनायक मोहि दीन्हा ॥  
चूडामनि उतारि तब दयऊ । हरष समेत पवनसुत लयऊ ॥ १ ॥  
कहेहु तात अस मोर प्रनामा । सब प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥  
दीन दयाल बिरिदु सँभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ २ ॥  
तात सक्रसुत कथा सुनाएहु । बान प्रताप प्रभुहि समुद्घाएहु ॥  
मास दिवस महुँ नाथ न आवा । तौ पुनि मोहि जिअत नहिं पावा ॥ ३ ॥  
कहु कपि केहि बिधि राखौं प्राना । तुम्हहु तात कहत अब जाना ॥  
तोहि देखि सीतलि भइ छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सो राती ॥ ४ ॥

### दोहा

जनकसुतहि समुद्घाइ करि बहु बिधि धीरजु दीन्ह ।  
चरन कमल सिरु नाइ कपि गवनु राम पहिं कीन्ह ॥ २७ ॥

चलत महाधुनि गर्जौसि भारी । गर्भ स्वाहिं सुनि निसिचर नारी ॥  
नाधि सिंधु एहि पारहि आवा । सबद् किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥ १ ॥  
हरषे सब बिलोकि हनुमाना । नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥  
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा । कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा ॥ २ ॥  
मिले सकल अति भए सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि बारी ॥  
चले हरषि रघुनायक पासा । पूँछत कहत नवल इतिहासा ॥ ३ ॥

तब मधुबन भीतर सब आए । अंगद संमत मधु फल खाए ॥

रखवारे जब बर्जन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥ ४ ॥

दोहा

जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज ।

सुन सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज ॥ २८ ॥

जौं न होति सीता सुधि पाई । मधुबन के फल सकहिं कि खाई ॥

एहि विधि मन बिचार कर राजा । आइ गए कपि सहित समाजा ॥ १ ॥

आइ सबन्हि नावा पद सीसा । मिलेऊ सबन्हि अति प्रेम कपीसा ॥

पूँछी कुसल कुसल पद देखी । राम कृपाँ भा काजु बिसेषी ॥ २ ॥

नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥

सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ । कपिन्ह सहित रघुपति पहिं चलेऊ ॥ ३ ॥

राम कपिन्ह जब आवत देखा । किएँ काजु मन हरष बिसेषा ॥

फटिक सिला बैठे द्वौ भाई । परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥ ४ ॥

दोहा

प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुना पुंज ।

पूँछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज ॥ २९ ॥

जामवंत कह सुनु रघुराया । जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥  
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ १ ॥  
सोइ बिजई बिनई गुन सागर । तासु सुजसु त्रैलोक उजागर ॥  
प्रभु कीं कृपा भयउ सब काजू । जन्म हमार सुफल भा आजू ॥ २ ॥  
नाथ पवनसुत कीन्ह जो करनी । सहस्र्हुँ मुख न जाइ सो बरनी ॥  
पवनतनय के चरित सुहाए । जामवंत रघुपतिहि सुनाए ॥ ३ ॥  
सुनत कृपानिधि मन अति भाए । पुनि हनुमान हरषि हियँ लाए ॥  
कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की ॥ ४ ॥

### दोहा

नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट ।  
लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहिं बाट ॥ ३० ॥

चलत मोहि चूडामनि दीन्ही । रघुपति हृदयँ लाइ सोइ लीन्ही ॥  
नाथ जुगल लोचन भरि बारी । बचन कहे कछु जनककुमारी ॥ १ ॥  
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना । दीन बंधु प्रनतारति हरना ॥  
मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहिं अपराध नाथ हौं त्यागी ॥ २ ॥  
अवगुन एक मोर मैं माना । बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥

नाथ सो नयनन्हि को अपराधा । निसरत प्रान करहिं हठि बाधा ॥ ३ ॥

बिरह अगिनि तनु तूल समीरा । स्वास जरइ छन माहिं सरीरा ॥

नयन स्ववहिं जलु निज हित लागी । जरैं न पाव देह बिरहागी ॥ ४ ॥

सीता कै अति बिपति बिसाला । बिनहिं कहें भलि दीनदयाला ॥ ५ ॥

दोहा

निमिष निमिष करुनानिधि जाहिं कलप सम बीति ।

बेगि चलिअ प्रभु आनिअ भुज बल खल दल जीति ॥ ३१ ॥

सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जल राजिव नयना ॥

बचन कायँ मन मम गति जाही । सपनेहुँ बूझिअ बिपति कि ताही ॥ १ ॥

कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥

केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥ २ ॥

सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥

प्रति उपकार करौं का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ ३ ॥

सुनु सत तोहि उरिन मैं नाहीं । देखेउँ करि बिचार मन माहीं ॥

पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ ४ ॥

दोहा

सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमंत ।

चरन परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ॥ ३२ ॥

बार बार प्रभु चहइ उठावा । प्रेम मगन तेहि उठब न भावा ॥

प्रभु कर पंकज कपि कें सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ १ ॥

सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदर ॥

कपि उठाइ प्रभु हृदयँ लगावा । कर गहि परम निकट बैठावा ॥ २ ॥

कहु कपि रावन पालित लंका । केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥

प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोला बचन बिगत हनुमाना ॥ ३ ॥

साखामृग कै बड़ि मनुसार्इ । साखा तें साखा पर जार्इ ॥

नाधि सिंधु हाटकपुर जारा । निसिचर गन बिधि बिपिन उजारा ॥ ४ ॥

सो सब तव प्रताप रघुरार्इ । नाथ न कछू मोरि प्रभुतार्इ ॥ ५ ॥

दोहा

ता कहुँ प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल ।

तव प्रभावँ वड़वानलहि जारि सकइ खलु तूल ॥ ३३ ॥

नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥

सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥ १ ॥

उमा राम सुभाउ जोहिं जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥  
यह संबाद् जासु उर आवा । रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥ २ ॥  
सुनि प्रभु बचन कहहिं कपि बृंदा । जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥  
तब रघुपति कपिपतिहिं बोलावा । कहा चलैं कर करहु बनावा ॥ ३ ॥  
अब बिलंबु केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥  
कौतुक देखि सुमन बहु बरषी । नभ तें भवन चले सुर हरषी ॥ ४ ॥

### दोहा

कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ ।  
नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ ॥ ३४ ॥

प्रभु पद पंकज नावहिं सीसा । गर्जहिं भालु महाबल कीसा ॥  
देखी राम सकल कपि सेना । चितइ कृपा करि राजिव नैना ॥ १ ॥  
राम कृपा बल पाइ कपिंदा । भए पच्छजुत मनहुँ गिरिदा ॥  
हरषि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भए सुंदर सुभ नाना ॥ २ ॥  
जासु सकल मंगलमय कीती । तासु पयान सगुन यह नीती ॥  
प्रभु पयान जाना बैदेहीं । फरकि बाम अँग जनु कहि देहीं ॥ ३ ॥  
जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई । असगुन भयउ रावनाहि सोई ॥  
चला कटकु को बरनैं पारा । गर्जहिं बानर भालु अपारा ॥ ४ ॥

नख आयुध गिरि पादपधारी । चले गगन महि इच्छाचारी ॥  
केहरिनाद भालु कपि करहीं । डगमगाहिं दिग्गज चिक्रहीं ॥ ५ ॥

छंद

चिक्रहीं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे ।  
मन हरष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किंनर दुख टरे ॥  
कटकटहीं मर्कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं ।  
जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं ॥ १ ॥  
सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहीं मोहई ।  
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥  
रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी ।  
जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी ॥ २ ॥

दोहा

एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर ।  
जहँ तहँ लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर ॥ ३५ ॥

उहाँ निसाचर रहहिं ससंका । जब तें जारि गयउ कपि लंका ॥  
निज निज गृह सब करहिं बिचारा । नहिं निसिचर कुल केर उबारा ॥ १ ॥

जासु दूत बल बरनि न जाई । तेहि आएँ पुर कवन भलाई ॥  
दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी । मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥ २ ॥  
रहसि जोरि कर पति पग लागी । बोली बचन नीति रस पागी ॥  
कंत करष हरि सन परिहरहू । मोर कहा अति हित हियं धरहू ॥ ३ ॥  
समुझत जासु दूत कइ करनी । स्वरहिं गर्भ रजनीचर धरनी ॥  
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहु भलाई ॥ ४ ॥  
तव कुल कमल बिपिन दुखदायई । सीता सीत निसा सम आई ॥  
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे । हित न तुम्हार संभु अज कीन्हे ॥ ५ ॥

### दोहा

राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक ।  
जब लगि ग्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक ॥ ३६ ॥

श्रवन सुनि सठ ता करि बानी । बिहसा जगत बिदित अभिमानी ॥  
सभय सुभाउ नारि कर साचा । मंगल महुँ भय मन अति काचा ॥ १ ॥  
जो आवइ मर्कट कटकाई । जिअहिं बिचारे निसिचर खाई ॥  
कंपहिं लोकप जाकीं त्रासा । तासु नारि सभीत बड़ि हासा ॥ २ ॥  
अस कहि बिहसि ताहि उर लाई । चलेउ सभाँ ममता अधिकाई ॥  
मंदोदरी हृदयं कर चिंता । भयउ कंत पर बिधि बिपरीता ॥ ३ ॥

बैठेउ सभाँ खबरि असि पाई । सिंधु पार सेना सब आई ॥  
बूझेसि सचिव उचित मत कहेहु । ते सब हँसे मष्ट करि रहेहु ॥ ४ ॥  
जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं । नर बानर केहि लेखे माहीं ॥ ५ ॥

दोहा

सचिव बैद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस ।  
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास ॥ ३७ ॥

सोइ रावन कहुँ बनी सहाई । अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई ॥  
अवसर जानि बिभीषनु आवा । भ्राता चरन सीसु तेहिं नावा ॥ १ ॥  
पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन ॥  
जौ कृपाल पूँछिहु मोहि बाता । मति अनुरूप कहउँ हित ताता ॥ २ ॥  
जो आपन चाहै कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥  
सो परनारि लिलार गोसाई । तजउ चउथि के चंद कि नाई ॥ ३ ॥  
चौदह भुवन एक पति होई । भूतद्रोह तिष्ठइ नहिं सोई ॥  
गुन सागर नागर नर जोऊ । अलप लोभ भल कहइ न कोऊ ॥ ४ ॥

दोहा

काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ ।

सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत ॥ ३८ ॥

तात राम नहिं नर भूपाला । भुवनेस्वर कालहु कर काला ॥  
ब्रह्म अनामय अज भगवंता । व्यापक अजित अनादि अनंता ॥ १ ॥  
गो द्विज धेनु देव हितकारी । कृपा सिंधु मानुष तनुधारी ॥  
जन रंजन भंजन खल ब्राता । वेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता ॥ २ ॥  
ताहि बयरु तजि नाइअ माथा । प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥  
देहु नाथ प्रभु कहुँ बैदेही । भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥ ३ ॥  
सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा । बिस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा ॥  
जासु नाम त्रय ताप नसावन । सोई प्रभु प्रगट समुझु जियँ रावन ॥ ४ ॥

### दोहा

बार बार पद लागउँ बिनय करउँ दससीस ।  
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥ ३९ क ॥  
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात ।  
तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात ॥ ३९ ख ॥

माल्यवंत अति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥  
तात अनुज तव नीति बिभूषन । सो उर धरहु जो कहत बिभीषन ॥ १ ॥

रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इहाँ हइ कोऊ ॥  
माल्यवंत गृह गयउ बहोरी । कहइ बिभीषनु पुनि कर जोरी ॥ २ ॥  
सुमति कुमति सब के उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥  
जहाँ सुमति तहँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना ॥ ३ ॥  
तव उर कुमति बसी बिपरीता । हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥  
कालराति निसिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ ४ ॥

### दोहा

तात चरन गहि मागउँ राखहु मोर दुलार ।  
सीत देहु राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ४० ॥

बुध पुरान श्रुति संमत बानी । कही बिभीषन नीति बखानी ॥  
सुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्य अब आई ॥ १ ॥  
जिअसि सदा सठ मोर जिअवा । रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥  
कहसि न खल अस को जग माहीं । भुज बल जाहि जिता मैं नाहीं ॥ २ ॥  
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिलु जाइ तिन्हाहि कहु नीती ॥  
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बारहिं बारा ॥ ३ ॥  
उमा संत कइ इहइ बड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥  
तुम्ह पितु सरिस भलेहिं मोहि मारा । रामु भजे हित नाथ तुम्हारा ॥ ४ ॥

सचिव संग लै नभ पथ गयऊ । सबाहि सुनाइ कहत अस भयऊ ॥ ५ ॥

दोहा

रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालबस तोरि ।  
मैं रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि ॥ ४१ ॥

अस कहि चला बिभीषनु जबहीं । आयूहीन भए सब तबहीं ॥

साधु अवग्या तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल कै हानी ॥ १ ॥

रावन जबहिं बिभीषन त्यागा । भयउ बिभव बिनु तबहिं अभागा ॥

चलेउ हरणि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥ २ ॥

देखिहउँ जाइ चरन जलजाता । अरुन मृदुल सेवक सुखदाता ॥

जे पद पसरि तरी रिषिनारी । दंडक कानन पावनकारी ॥ ३ ॥

जे पद जनकसुताँ उर लाए । कपट कुरंग संग धर धाए ॥

हर उर सर सरोज पद जेर्ई । अहोभाग्य मैं देखिहउँ तेर्ई ॥ ४ ॥

दोहा

जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन लाइ ।  
ते पद आजु बिलोकिहउँ इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ ४२ ॥

एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ सपदि सिंधु एहिं पारा ॥  
 कपिन्ह बिभीषनु आवत देखा । जान कोउ रिपु दूत बिसेषा ॥ १ ॥  
 ताहि राखि कपीस पहिं आए । समाचार सब ताहि सुनाए ॥  
 कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । आवा मिलन दसानन भाई ॥ २ ॥  
 कह प्रभु सखा बूझिअ काहा । कहइ कपीस सुनहु नरनाहा ॥  
 जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ॥ ३ ॥  
 भेद हमार लेन सठ आवा । राखिअ बाँधि मोहि अस भावा ॥  
 सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥ ४ ॥  
 सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना । सरनागत बच्छल भगवाना ॥ ५ ॥

## दोहा

सरनागत कहुँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि ।  
 ते नर पावँर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥ ४३ ॥

कोटि बिप्र बध लागहिं जाहू । आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू ॥  
 सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ १ ॥  
 पापवंत कर सहज सुभाऊ । भजहु मोर तेहि भाव न काऊ ॥  
 जौं पै दुष्टहृदय सोइ होई । मोरें सनमुख आव कि सोई ॥ २ ॥  
 निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥

भेद लेन पठवा दससीसा । तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥ ३ ॥

जग महुँ सखा निसाचर जेते । लछिमनु हनइ निमिष महुँ तेते ॥

जो सभीत आवा सरनाई । राखिवहउँ ताहि प्रान की नाई ॥ ४ ॥

दोहा

उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत ।

जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥ ४४ ॥

सादर तेहि आगे करि बानर । चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥

दूरिहि ते देखे द्वौ भ्राता । नयनानंद दान के दाता ॥ १ ॥

बहुरि राम छविधाम बिलोकी । रहेउ ठटुकि एकटक पल रोकी ॥

भुज प्रलंब कंजारुन लोचन । स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥ २ ॥

सिंघ कंध आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मन मोहा ॥

नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही मूदु बाता ॥ ३ ॥

नाथ दसानन कर मैं भ्राता । निसिचर बंस जनम सुख्राता ॥

सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥ ४ ॥

दोहा

श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर ।

त्राहि त्राहि आराति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ ४५ ॥

अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा ॥  
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । भुज बिसाल गहि हृदयँ लगावा ॥ १ ॥  
अनुज सहित मिलि ढिंग बैठारी । बोले बचन भगत भय हारी ॥  
कहु लंकेस सहित परिवारा । कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ २ ॥  
खल मंडलीं बसहु दिन राती । सखा धरम निबहइ केहि भाँती ॥  
मैं जानउँ तुम्हारि सब रीती । अति नय निपुन न भाव अनीती ॥ ३ ॥  
बरु भल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ बिधाता ॥  
अब पद देखि कुसल रघुराया । जौं तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥ ४ ॥

दोहा

तब लगि कुसल न जीव कहुँ सपनेहुँ मन बिश्राम ।  
जब लगि भजन न राम कहुँ सोक धाम तजि काम ॥ ४६ ॥

तब लगि हृदयँ बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥  
जब लगि उर न बसत रघुनाथा । धरें चाप सायक कटि भाथा ॥ १ ॥  
ममता तरुन तमी अँधिअरी । राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥  
तब लगि बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाहीं ॥ २ ॥

अब मैं कुसल मिटे भय भारे । देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥  
तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला । ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला ॥ ३ ॥  
मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ । सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ ॥  
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहिं प्रभु हरषि हृदयँ मोहि लावा ॥ ४ ॥

### दोहा

अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज ।  
देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पद कंज ॥ ४७ ॥

सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ । जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ ॥  
जौं नर होइ चराचर द्रोही । आवौ सभय सरन तकि मोही ॥ १ ॥  
तजि मद मोह कपट छल नाना । करउँ सद्य तेहि साधु समाना ॥  
जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ २ ॥  
सब कै ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥  
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥ ३ ॥  
अस सज्जन मम उर बस कैसे । लोभी हृदयँ बसइ धनु जैसे ॥  
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । धरउँ देह नहिं आन निहोरे ॥ ४ ॥

### दोहा

सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ।  
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥ ४८ ॥

सुन लंकेस सकल गुन तोरें । तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें ॥  
राम बचन सुनि बानर जूथा । सकल कहाहिं जय कृपा बरूथा ॥ १ ॥  
सुनत बिभीषनु प्रभु कै बानी । नहिं अघात श्रवनामृत जानी ॥  
पद अंबुज गहि बारहिं बारा । हृदयँ समात न प्रेमु अपारा ॥ २ ॥  
सुनहु देव सच्चाचर स्वामी । प्रनतपाल उर अंतरजामी ॥  
उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ ३ ॥  
अब कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥  
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । मागा तुरत सिंधु कर नीरा ॥ ४ ॥  
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥  
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन वृष्टि नभ भई अपारा ॥ ५ ॥

### दोहा

रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड ।  
जरत बिभीषनु राखेउ दीन्हेउ राजु अखंड ॥ ४९ क ॥  
जो संपति सिव रावनहि दीन्ह दिएँ दस माथ ।  
सोइ संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ ४९ ख ॥

अस प्रभु छाडि भजहिं जे आना । ते नर पसु बिनु पूँछ विषाना ॥  
निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥ १ ॥  
पुनि सर्वग्य सर्व उर बासी । सर्वरूप सब रहित उदासी ॥  
बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारन मनुज दनुज कुल घालक ॥ २ ॥  
सुनु कपीस लंकापति बीरा । केहि विधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥  
संकुल मकर उरग झाष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती ॥ ३ ॥  
कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥  
जद्यपि तदपि नीति असि गाई । बिनय करिअ सागर सन जाई ॥ ४ ॥

### दोहा

प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय विचारि ।  
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥ ५० ॥

सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिअ दैव जौं होइ सहाई ॥  
मंत्र न यह लछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ १ ॥  
नाथ दैव कर कवन भरोसा । सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥  
कादर मन कहुँ एक अधारा । दैव दैव आलसी पुकारा ॥ २ ॥  
सुनत विहसि बोले रघुबीरा । ऐसेहिं करब धरहु मन धीरा ॥

अस कहि प्रभु अनुजाहि समुझाई । सिंधि समीप गए रघुराई ॥ ३ ॥  
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई । बैठे पुनि तट दर्भ डसाई ॥  
जबहिं बिभीषन प्रभु पहिं आए । पाछे रावन दूत पठाए ॥ ४ ॥

### दोहा

सकल चरित तिन्ह देखे धरें कपट कपि देह ।  
प्रभु गुन हृदयँ सराहिं सरनागत पर नेह ॥ ५१ ॥

प्रगट बखानहिं राम सुभाऊ । अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥  
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने । सकल बाँधि कपीस पहिं आने ॥ १ ॥  
कह सुग्रीव सुनहु सब बानर । अंग भंग करि पठवहु निसिचर ॥  
सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए । बाँधि कटक चहु पास फिराए ॥ २ ॥  
बहु प्रकार मारन कपि लागे । दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥  
जो हमार हर नासा काना । तेहि कोसलाधीस कै आना ॥ ३ ॥  
सुनि लछिमन सब निकट बोलाए । दया लागि हँसि तुरत छोड़ाए ॥  
रावन कर दीजहु यह पाती । लछिमन बचन बाचु कुलघाती ॥ ४ ॥

### दोहा

कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेसु उदार ।

सीता देइ मिलहु न त आवा कालु तुम्हार ॥ ५२ ॥

तुरत नाइ लछिमन पद माथा । चले दूत बरनत गुन गाता ॥  
कहत राम जसु लंकाँ आए । रावन चरन सीस तिन्ह नाए ॥ १ ॥  
बिहसि दसानन पूँछी बाता । कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥  
पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी । जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥ २ ॥  
करत राज लंका सठ त्यागी । होइहि जव कर कीट अभागी ॥  
पुनि कहु भालु कीस कटकाई । कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥ ३ ॥  
जिन्ह के जीवन कर रखवारा । भयउ मूदुल चित सिंधु बिचारा ॥  
कहु तपसिन्ह कै बात बहोरी । जिन्ह के हृदयँ त्रास अति मोरी ॥ ४ ॥

दोहा

की भइ भेट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर ।  
कहसि न रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित तोर ॥ ५३ ॥

नाथ कृपा करि पूँछेहु जैसें । मानहु कहा क्रोध तजि तैसें ॥  
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहिं राम तिलक तेहि सारा ॥ १ ॥  
रावन दूत हमहि सुनि काना । कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना ॥  
श्रवन नासिका काटै लागे । राम सपथ दीन्हे हम त्यागे ॥ २ ॥

पूँछिहु नाथ राम कटकाई । बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥  
नाना बरन भालु कपि धारी । बिकटानन बिसाल भयकारी ॥ ३ ॥  
जेहिं पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा । सकल कपिन्ह महँ तेहि बलु थोरा ॥  
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बल बिपुल बिसाला ॥ ४ ॥

दोहा

द्विविद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासि ।  
दधिमुख केहरि निसठ सठ जामवंत बलरासि ॥ ५४ ॥

ए कपि सब सुग्रीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥  
राम कृपाँ अतुलित बल तिन्हर्हीं । तृन समान त्रैलोकहि गनर्हीं ॥ १ ॥  
अस मैं सुना श्रवन दसकंघर । पदुम अठारह जूथप बंदर ॥  
नाथ कटक महँ सो कपि नाहीं । जो न तुम्हहि जीतै रन माहीं ॥ २ ॥  
परम क्रोध मीजहिं सब हाथा । आयसु पै न देहिं रघुनाथा ॥  
सोषहिं सिंधु सहित झाष ब्याला । पूरहिं न त भरि कुधर बिसाला ॥ ३ ॥  
मर्दि गर्द मिलवहिं दससीसा । ऐसेइ बचन कहहिं सब कीसा ॥  
गर्जहिं तर्जहिं सहज असंका । मानहुँ ग्रसन चहत हहिं लंका ॥ ४ ॥

दोहा

सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम ।  
रावन काल कोटि कहुँ जीति सकहिं संग्राम ॥ ५५ ॥

राम तेज बल बुधि बिपुलाई । सेष सहस सत सकहिं न गाई ॥  
सक सर एक सोषि सत सागर । तव आतहि पूँछेउ नय नागर ॥ १ ॥  
तासु बचन सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ कृपा मन माहीं ॥  
सुनत बचन बिहसा दससीसा । जौं असि मति सहाय कृत कीसा ॥ २ ॥  
सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई । सागर सन ठानी मचलाई ॥  
मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई । रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई ॥ ३ ॥  
सचिव सभीत बिभीषन जाकें । बिजय बिभूति कहाँ जग ताकें ॥  
सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी । समय बिचार पत्रिका काढ़ी ॥ ४ ॥  
रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती ॥  
बिहसि बाम कर लीन्ही रावन । सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥ ५ ॥

### दोहा

बातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस ।  
राम विरोध न उबरसि सरन विष्णु अज ईस ॥ ५६ क ॥  
की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग ।  
होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥ ५६ ख ॥

सुनत सभय मन मुख मुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥  
भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग बिलासा ॥ १ ॥  
कह सुक नाथ सत्य सब बानी । समुद्रहु छाड़ि प्रकृति अभिमानी ॥  
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥ २ ॥  
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ । जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥  
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकउ धरही ॥ ३ ॥  
जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥  
जब तेहि कहा देन बैदेही । चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥ ४ ॥  
नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ । कृपासिंधु रघुनायक जहाँ ॥  
करि प्रनामु निज कथा सुनाई । राम कृपाँ आपनि गति पाई ॥ ५ ॥  
रिषि अगस्ति कीं साप भवानी । राछस भयउ रहा मुनि ग्यानी ॥  
बंदि राम पद बारहिं बारा । मुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा ॥ ६ ॥

### दोहा

बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति ।  
बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥ ५७ ॥

लछिमन बान सरासन आनू । सोषौं बारिधि बिसिख कृसानू ॥

सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ १ ॥  
ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन विरति बखानी ॥  
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बएँ फल जथा ॥ २ ॥  
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा । यह मत लछिमन के मन भावा ॥  
संधानेउ प्रभु बिसिख कराला । उठी उदाधि उर अंतर ज्वाला ॥ ३ ॥  
मकर उरग झाष गन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥  
कनक थार भरि मनि गन नाना । बिप्र रूप आयउ तजि माना ॥ ४ ॥

काटेहिं पइ कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सींच ।  
बिनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पइ नव नीच ॥ ५८ ॥

सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे । छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥  
गगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥ १ ॥  
तव प्रेरित मायाँ उपजाए । सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए ॥  
प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई । सो तेहि भाँति रहें सुख लहई ॥ २ ॥  
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥  
ढोल गँवार सूद्र पसु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी ॥ ३ ॥  
प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई । उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥  
प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई । करौं सो बेगि जो तुम्हाहि सोहाई ॥ ४ ॥

दोहा

सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाइ ।  
जेहि बिधि उतरैं कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ ॥ ५९ ॥

नाथ नील नल कपि द्वौ भाई । लरिकाई रिषि आसिष पाई ।  
तिन्ह के परस किएँ गिरि भारे । तरिहहिं जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ १ ॥  
मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहउँ बल अनुमान सहाई ॥  
एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइअ । जेहिं यह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ ॥ २ ॥  
एहिं सर मम उत्तर तट बासी । हतहु नाथ खल नर अघ रासी ॥  
सुनि कृपाल सागर मन पीरा । तुरतहिं हरी राम रन धीरा ॥ ३ ॥  
देखि राम बल पौरुष भारी । हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥  
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा । चरन बंदि पाथोधि सिधावा ॥ ४ ॥

छांद्

निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ ।  
यह चरित कलि मल हर जथामति दास तुलसी गाऊ ॥  
सुख भवन संसय समन दवन विषाद रघुपति गुन गना ।  
तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना ॥

दोहा

सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान ।  
सादर सुनहिं ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजान ॥ ६० ॥

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने  
पञ्चमः सोपानः समाप्तः ।

॥ सियावर रामचन्द्र की जै ॥